



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2264]

No. 2264]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2012/कार्तिक 25, 1934

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2012/KARTIKA 25, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2012

सं. 100/2012-सीमा-शुल्क (नै.टै.)

का.आ. 2720(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मेसर्स लैम्डा थेराप्युटिक रिसर्च लि., निकट गुजरात हाईकोर्ट, एस जी राजमार्ग, गोटा, अहमदाबाद को संयुक्त निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट, अहमदाबाद के द्वारा फा. सं. डीआरआई/एजेडयू/आईएनवी-68 लैम्डा/2009, दिनांक 30 मई, 2012 के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए —

(i) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क कस्टम्स हाउस, अहमदाबाद; और

(ii) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, (एअर कार्गो आयात), एअर कार्गो कम्प्लेक्स, सहार, मुम्बई,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क, कस्टम हाउस, अहमदाबाद को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा सं 437/41/2012-सी.शु.-IV]

एम. वी. वासुदेवन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2012

No. 100/2012-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2720(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby imposes the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, Custom House, Ahmedabad, to exercise the powers and discharge the duties as a common adjudicating authority over the powers and duties exercisable by—

(i) the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, Custom House, Ahmedabad; and

(ii) the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs (Air Cargo-Import), Air Cargo Complex, Sahar, Mumbai,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s Lambda Therapeutic Research Ltd., Near Gujarat High Court, S.G Highway, Gota, Ahmedabad issued vide F. No. DRI/AZU/INV- 68/Lambda/2009, dated the 30th May, 2012, by the Joint Director, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Ahmedabad.

[F. No. 437/41/2012-Cus. IV]

M. V. VASUDEVAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2012

सं. 101/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 2721(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मेसर्स हार्वेल्स इण्डिया लिमिटेड ब्यू आर जी टावर्स 2डी सेक्टर-126 एक्सप्रेस वे नोएडा, उ. प्र. को संयुक्त निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट, अहमदाबाद के द्वारा फा. सं. डीआरआई/एजेडयू/आईएनवी-29/2011, दिनांक 20 मार्च, 2012 के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए—

- (i) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क कस्टम्स हाउस, इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो, तुगलकाबाद; और
- (ii) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो, गढ़ी हरसरु, गुडगांव,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क, इन्लैण्ड कन्टेनर डिपो तुगलकाबाद, नई दिल्ली को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/44/2012-सी.शु.-IV]

एम. वी. वासुदेवन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2012

No. 101/2012-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2721(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby imposes the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi, to exercise the powers and discharge the duties as a common adjudicating authority over the powers and duties exercisable by—

- (i) the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, Custom House, Inland Container Depot, Tughlakabad; and
- (ii) the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Central Excise and Customs, Inland Container Depot Garhi Harsaru, Gurgaon,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s Havells India Ltd., QRG Towers 2D, Sector-126, Expressway Noida, U.P., issued vide, F. No. DRI/AZU/INV-29/2011 dated the 20th March, 2012, by the Joint Director, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Ahmedabad.

[F. No. 437/44/2012-Cus. IV]

M. V. VASUDEVAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2012

सं. 102/2012-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 2722(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मेसर्स कोएलजे ऑर्गेनिक लि., कोएलजे हाउस, 63 रामा मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली को संयुक्त निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट, अहमदाबाद के द्वारा फा. सं. डीआरआई/एजेडयू/सीआई-04/कोएलजे ऑर्गेनिक/2012, दिनांक 6 अगस्त, 2012 के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए—

- (i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात) कस्टम्स हाउस काण्डला गुजरात; और
- (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), अदानी पोर्ट एण्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लि., मुंद्रा, गुजरात,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क (आयात), कस्टम हाउस, काण्डला को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/52/2012-सी.शु.-IV]

एम. वी. वासुदेवन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2012

No. 102/2012-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2722(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby imposes the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Import), Custom House, Kandla, to exercise the powers and discharge the duties as adjudicating authority over the powers and duties exercisable by—

- (i) The Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Import), Custom House, Kandla, Gujarat
- (ii) The Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Import), Adani Port and Special Economic Zone (SEZ) Limited, Mundra, Guajart,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s KLJ Organic Ltd., KLJ House, 63 Rama Marg, Najafgarh Road, New Delhi, issued vide, F.No. DRI/AZU/CI-04/KLJ Organic/2012 dated 6th August, 2012, by the Joint Director, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Ahmedabad.

[F. No. 437/52/2012-Cus. IV]

M. V. VASUDEVAN, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2012

सं. 103/2012-सीमा-शुल्क (नै.टै.)

का.आ. 2723(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मेसर्स केएलजे रिसोर्सेस लि., केएलजे हाउस, 63 रामा मार्ग, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली को संयुक्त निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, जोनल यूनिट, अहमदाबाद के द्वारा फा. सं. डीआरआई/एजेडयू/ सीआई-04/ केएलजे रिसोर्सेस/2012, दिनांक 6 अगस्त, 2012 के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए—

- (i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात) कस्टम्स हाउस काण्डला गुजरात; और
- (ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), अदानी पोर्ट एण्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लि., मुंद्रा, गुजरात,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क (आयात), कस्टम हाउस, काण्डला को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/54/2012-सी.शु.-IV]

एम. वी. वासुदेवन, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2012

No. 103/2012-CUSTOMS (N.T.)

S.O. 2723(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby imposes the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Import), Custom House, Kandla, to exercise the powers and discharge the duties as adjudicating authority over the powers and duties exercisable by—

- (i) The Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Import), Custom House, Kandla, Gujarat
- (ii) The Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Import), Adani Port and Special Economic Zone (SEZ) Limited, Mundra, Gujarat,

for the purpose of adjudicating the matters relating to Show Cause Notice pertaining to M/s KLJ Resources Ltd., KLJ House, 63 Rama Marg, Najafgarh Road, New Delhi, issued vide, F.No. DRI/AZU/CI-04/KLJ Resources/2012 dated 6th August, 2012, by the Joint Director, Directorate of Revenue Intelligence, Zonal Unit, Ahmedabad.

[F. No. 437/54/2012-Cus. IV]

M. V. VASUDEVAN, Under Secy.